

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-16112024-258677
SG-DL-E-16112024-258677असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 285] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2024/कार्तिक 22, 1946 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 250
No. 285] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2024/KARTIKA 22, 1946 [N. C. T. D. No. 250भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIसामान्य प्रशासन विभाग
(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

स. फा. 53/689/सा.प्र.वि./समन्व./2024-25/2018-2064.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिनों को वर्ष 2025 (शक सम्वत् 1946-47) में अवकाश के रूप में मनाए जाने के लिये घोषित करते हैं :-

क्र. सं.	अवकाश	तारीख	शक तिथि	सप्ताह का दिन
शक संवत् 1946				
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ 06	रविवार
2.	महा शिवरात्रि	26 फरवरी	फाल्गुन 07	बुधवार
3.	होली	14 मार्च	फाल्गुन 23	शुक्रवार

शक संवत् 1947					
4.	ईद-उल-फितर	31 मार्च	चैत्र	10	सोमवार
5.	महावीर जयन्ती	10 अप्रैल	चैत्र	20	गुरुवार
6.	गुड फ्राइडे	18 अप्रैल	चैत्र	28	शुक्रवार
7.	बुद्ध पूर्णिमा	12 मई	वैसाख	22	सोमवार
8.	ईद-उल जुहा (बकरीद)	07 जून	ज्येष्ठ	17	शनिवार
9.	मुहर्म्म	06 जुलाई	आषाढ़	15	रविवार
10.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण	24	शुक्रवार
11.	जन्माष्टमी (वैष्णव)	16 अगस्त	श्रावण	25	शनिवार
12.	मिलाद-उन-नबी अथवा ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस)	05 सितम्बर	भाद्र	14	शुक्रवार
13.	महात्मा गांधी जन्मदिवस	02 अक्टूबर	अश्विन	10	गुरुवार
14.	दशहरा	02 अक्टूबर	अश्विन	10	गुरुवार
15.	महर्षि बाल्मीकि जन्मदिवस	07 अक्टूबर	अश्विन	15	मंगलवार
16.	दिवाली (दीपावली)	20 अक्टूबर	अश्विन	28	सोमवार
17.	गुरु नानक जन्मदिवस	05 नवम्बर	कार्तिक	14	बुधवार
18.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर	पौष	04	गुरुवार

उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त एक कर्मचारी वर्ष 2025 (शक सम्वत् 1946-47) के निम्नलिखित प्रतिबंधित अवकाशों में से कोई दो अवकाश पाने का हकदार है:-

क्र० सं०	अवकाश	तारीख	शक तिथि	सप्ताह का दिन	
शक संवत् 1946					
1.	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी	पौष	11	बुधवार
2.	गुरु गोबिन्द सिंह जन्मदिवस	06 जनवरी	पौष	16	सोमवार
3.	मकर संक्रान्ति/माघ बिहू/पोंगल/ हज़रत अली का जन्मदिवस	14 जनवरी	पौष	24	मंगलवार
4.	बसंत पंचमी / श्री पंचमी	02 जनवरी	माघ	13	रविवार
5.	गुरु रविदास का जन्मदिवस	12 फरवरी	माघ	13	बुधवार
6.	शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी	माघ	30	बुधवार
7.	स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्मदिवस	23 फरवरी	फाल्गुन	04	रविवार
8.	होलिका दहन	13 मार्च	फाल्गुन	22	गुरुवार
9.	दोलयात्रा	14 मार्च	फाल्गुन	23	शुक्रवार
शक संवत् 1947					
10.	जमात-उल-विदा	28 मार्च	चैत्र	07	शुक्रवार
11.	चैत्र शुक्लादि/गुडी पडवा/उगाड़ी/चेती चाँद	30 मार्च	चैत्र	09	रविवार

12.	राम नवमी	06 अप्रैल	चैत्र	16	रविवार
13.	वैशाखी / विशु	13 अप्रैल	चैत्र	23	रविवार
14.	मसादि (तमिल नव वर्ष का दिन)	14 अप्रैल	चैत्र	24	सोमवार
15.	वैशाखादि (बंगाल) / बिहाग बिहू (असम)	15 अप्रैल	चैत्र	25	मंगलवार
16.	ईस्टर रविवार	20 अप्रैल	चैत्र	30	रविवार
17.	गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जन्मदिवस	09 मई	वैसाख	19	शुक्रवार
18.	रथ यात्रा	27 जून	आषाढ़	06	शुक्रवार
19.	रक्षा बंधन	09 अगस्त	श्रावण	18	शनिवार
20.	पारसी नववर्ष दिन / नौरोज	15 अगस्त	श्रावण	24	शुक्रवार
21.	जनमाष्टमी (स्मार्ता)	15 अगस्त	श्रावण	24	शुक्रवार
22.	गणेश चतुर्थी / विनायक चतुर्थी	27 अगस्त	भाद्र	05	बुधवार
23.	ओणम एंव थिरु ओणम दिवस	05 सितम्बर	भाद्र	14	शुक्रवार
24.	दशहरा (सप्तमी)	29 सितम्बर	अश्विन	07	सोमवार
25.	दशहरा (महाअष्टमी)	30 सितम्बर	अश्विन	08	मंगलवार
26.	दशहरा (महानवमी)	01 अक्टूबर	अश्विन	09	बुधवार
27.	करक चतुर्थी (करवा चौथ)	10 अक्टूबर	अश्विन	18	शुक्रवार
28.	नरक चतुर्दशी	20 अक्टूबर	अश्विन	28	सोमवार
29.	गोवर्धन पूजा	22 अक्टूबर	अश्विन	30	बुधवार
30.	भाई दूज	23 अक्टूबर	कार्तिक	01	गुरुवार
31.	प्रतिहार षष्ठी अथवा सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)	28 अक्टूबर	कार्तिक	06	मंगलवार
32.	गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस	24 नवम्बर	अग्रहायण	03	सोमवार
33.	क्रिसमस की पूर्व संध्या	24 दिसम्बर	पौष	03	बुधवार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश व उनके नाम पर,,
प्रदीप तायल, उप सचिव (सा. प. वि./सम.)

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Co-ordination Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 13th November, 2024

No. F. 53/689/GAD/CN/2024-25/2018-2064.—The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare the days specified in the following schedule to be observed as holidays in all Government offices under Government of National Capital Territory of Delhi during the year 2025 (Saka Era 1946-47):-

S. No.	Holiday	Date	Saka Date	Day
1946 SAKA ERA				
1.	Republic Day	January 26	Magha 06	Sunday
2.	Maha Shivaratri	February 26	Phalguna 07	Wednesday

3.	Holi	March 14	Phalguna 23	Friday
1947 SAKA ERA				
4.	Id-ul Fitr	March 31	Chaitra 10	Monday
5.	Mahavir Jayanti	April 10	Chaitra 20	Thursday
6.	Good Friday	April 18	Chaitra 28	Friday
7.	Buddha Purnima	May 12	Vaisakha 22	Monday
8.	Id-ul-Zuha (Bakrid)	June 07	Jyaishtha 17	Saturday
9.	Muharram	July 06	Ashadha 15	Sunday
10.	Independence Day	August 15	Sravana 24	Friday
11.	Janmashtami	August 16	Sravana 25	Saturday
12.	Milad-un-Nabi or Id-e Milad (Birthday of Prophet Mohammad)	September 05	Bhadra 14	Friday
13.	Mahatma Gandhi's Birthday	October 02	Asvina 10	Thursday
14.	Dussehra	October 02	Asvina 10	Thursday
15.	Maharishi Valmiki's Birthday	October 07	Asvina 15	Tuesday
16.	Diwali (Deepavali)	October 20	Asvina 28	Monday
17.	Guru Nanak's Birthday	November 05	Kartika 14	Wednesday
18.	Christmas Day	December 25	Pausha 04	Thursday

In addition to the holidays specified above, an employee is entitled to avail himself/herself any of two holidays out of the following Restricted Holidays during the year 2025 (Saka Era 1946-47) as mentioned below :

S.No	Holiday	Date	Saka Date	Day
1946 SAKA ERA				
1.	New Year's Day	January 01	Pausha 11	Wednesday
2.	Guru Gobind Singh's Birthday	January 06	Pausha 16	Monday
3.	Makar Sankranti/ Magha Bihu/ Pongal/ Hazarat Ali's Birthday	January 14	Pausha 24	Tuesday
4.	Basant Panchami/ Sri Panchami	February 02	Magha 13	Sunday
5.	Guru Ravi Das's Birthday	February 12	Magha 23	Wednesday
6.	Shiva ji Jayanti	February 19	Magha 30	Wednesday
7.	Birthday of Swami Dayananda Saraswati	February 23	Phalguna 04	Sunday
8.	Holika Dahan	March 13	Phalguna 22	Thursday
9.	Dolyatra	March 14	Phalguna 23	Friday
1947 SAKA ERA				
10.	Jamat-Ul-Vida	March 28	Chaitra 07	Friday
11.	Chaitra Sukladi/ Gudi Padava / Ugadi/ Cheti Chand	March 30	Chaitra 09	Sunday
12.	Ram Navmi	April 06	Chaitra 16	Sunday
13.	Vaisakhi / Vishu	April 13	Chaitra 23	Sunday
14.	Meshadi (Tamil New Year's Day)	April 14	Chaitra 24	Monday

15.	Vaisakhadi (Bengal) / Bahag Bihu (Assam)	April	15	Chaitra	25	Tuesday
16.	Easter Sunday	April	20	Chaitra	30	Sunday
17.	Guru Rabindranath's Birthday	May	09	Vaisakha	19	Friday
18.	Rath Yatra	June	27	Ashadha	06	Friday
19.	Raksha Bandhan	August	09	Sravana	18	Saturday
20.	Parsi New Year's day/ Nauraj	August	15	Sravana	24	Friday
21.	Janmashtami (Smarta)	August	15	Sravana	24	Friday
22.	Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi	August	27	Bhadra	05	Wednesday
23.	Onam or Thiru Onam Day	September	05	Bhadra	14	Friday
24.	Dussehra (Saptami)	September	29	Asvina	07	Monday
25.	Dussehra (Mahashtami)	September	30	Asvina	08	Tuesday
26.	Dussehra (Mahanavmi)	October	01	Asvina	09	Wednesday
27.	Karaka Chaturthi (Karva Chouth)	October	10	Asvina	18	Friday
28.	Naraka Chaturdasi	October	20	Asvina	28	Monday
29.	Govardhan Puja	October	22	Asvina	30	Wednesday
30.	Bhai Duj	October	23	Kartika	01	Thursday
31.	Pratihari Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja)	October	28	Kartika	06	Tuesday
32.	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	November	24	Agrahayana	03	Monday
33.	Christmas Eve	December	24	Pausha	03	Wednesday

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
PRADEEP TAYAL, Dy. Secy. (GAD/CN)